

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १९९] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर २६, १९६७/कार्तिक ४, १८८९

No. 199] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 1967/KARTIKA 4, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

(Transport Wing)

CORRIGENDA

New Delhi, the 26th October 1967

G.S.R. 1636.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing) No. G.S.R. 1559, dated the 28th September, 1967, and published in the Gazette of India Part II Section 3(i), dated the 21st October, 1967, at pages 1695-1696,—

At page 1695, in para 2 of the preamble, for "20th October, 1967" read "28th October, 1967".

[No. 11-PG(37)/67.]

G.S.R. 1637.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing) No. G.S.R. 1580, dated the 6th October, 1967, and published in the Gazette of India Part II Section 3(i), dated the 21st October, 1967, at page 1696,—

At page 1696, in para 2 of the preamble, for "20th October, 1967" read "28th October, 1967".

[No. 11-PG(40)/67.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

(535)